

जन्म प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र

ग्रामीण / शहरी	
जन्म तिथि	
जन्म का स्थान (पूर्ण पता)	
लिंग	
बालक / बालिका का नाम	
पिता का नाम	
माता का नाम	
पुरा पता	
धर्म	
राष्ट्रीयता	
जिला	
तहसील	
ब्लॉक	
ग्राम पंचायत	
नगर पालिका क्षेत्र / पटवारी चौकी	
जन्म की तिथि से आज तक दिन	
आवेदक का नाम	
आवेदक का पता	
आवेदक का मोबाइल नम्बर	
पिता का शैक्षिक स्तर	
माता का शैक्षिक स्तर	
पिता का व्यवसाय	
माता का व्यवसाय	
माता के विवाह के समय आयु	
इस सन्तान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में	
माता की सन्तान को मिलाकर जीवित सन्तानों की संख्या लिखें	
प्रसव का प्रकार— प्राकृतिक / ऑपरेशन / दाई द्वारा	

कार्यालय प्रयोग हेतु

पंजीकरण सं०	
पंजीकरण दिनांक	

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक:

उपजिलाधिकारी महोदय/अधिशासी अधिकारी महोदय,

आवेदक के जन्म/मृत्यु प्रार्थना—पत्र संलग्नक शपथनामा/आवेदन पत्र पर जांच की गई तथा आवेदक वार्ड सं0.....में आवेदक के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। आवेदक के निवास पर जा कर जांच की गई है। आवेदक एवं गवाहों के बयान लिए गये एवं पूछताछ की गई। आवेदक एवं गवाहों द्वारा अवगत कराया गया है कि इसकी जन्म तिथि.....को हुई है। उनके हस्ताक्षर निम्न हैं। आवेदक की माता/पिता/पति/पत्नी की मृत्यु तिथि..... को सही पाई गई है। आवेदक एवं पड़ोसियों से भी इसकी सम्पूर्ण जांच की पुष्टी की गई है। आवेदन श्री/श्रीमती के द्वारा अपने पुत्र/पुत्री का प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जिनके हस्ताक्षर निम्न प्रकार लिये गये हैं:—

हस्ताक्षर गवाहन—

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

ह0 स्वास्थ्य निरीक्षक

अधिशासी अधिकारी महोदय,

निरीक्षक द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट में जन्म/मृत्यु दिनांक.....की पुष्टी की गयी है। यह घटना एक वर्ष से कम/अधिक अवधि की है। आवेदक द्वारा शपथनामा/आवेदन में प्रस्तुत तथ्य सही पाये गये हैं। इनके परिवार के मुखिया का राशन कार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

अतः उक्त जन्म/मृत्यु की घटना की जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है। श्रीमान् उप—जिलाधिकारी, श्रीनगर महोदय की स्वीकृति/संस्तुति हेतु प्रस्तुत।

केन्द्र संचालक,
ई—डिस्ट्रिक्ट केन्द्र,
श्रीनगर गढ़वाल।
दिनांक